



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)
(BANARAS HINDU UNIVERSITY)
रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY
(ऊच्चानुशीलन केंद्र एवं डी एस टी प्रायोजित 'फिस्ट' विभाग)
(CENTRE OF ADVANCED STUDY & DST DEPARTMENT UNDER FIST)
(वाराणसी - 221004) Varanasi - 221005

QUOTATION ENQUIRY

Ref: ChE/2020-21/QTN/157
Posting Date: 04.03.2021

Tender Closing Date: 18.03.2021

Date 04.03.2021
Tender Opening Date: 19.03.2021

Dear Sir,

Please submit your lowest rate for supplying the under mentioned items. Quotations in duplicate reach us before the date marked above and should contain the following information:

1. Full specification and make of the item offered and its rate F.O.R. Varanasi.
2. GST at concessional rate as applicable to educational institution.
3. Your VAT/GST registration number, PAN&TAN numbers.
4. Conditions of supply and terms of payment.

If you are a manufacture of the item or if you have proprietary right over it, please mention it in the quotation and provide a certificate.

5. Please mention your agency commission in Indian Rs., if applicable (in case of imported items).
6. Please give undertaking as per annexure-I-B and annexure-I-C

Quotation must be sent in a **Sealed Envelope** with word "QUOTATION", our reference number, and due date as given above, clearly marked over it.

S. No.	Item	Specification	Qty
1	Basic Solar Simulator	Details Sepcification is attached.	01

Note: Price quoted only in INR. Please provide the price break up (i.e. base price, shipping/handling, taxes) separately.

N.B: Other terms & conditions pertaining to item mentioned above, shall be mentioned below:

The sealed quotations will be opened on 19.03.2021 at 01:00 PM in the office of the Head, Department of Chemical Engineering & Technology, IIT(BHU) (This is mandatory in case of e-publishing)

सहायक प्राचार्य
Assistant Professor
रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग
Dept. of Chemical Engg. & Tech.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
Indian Institute of Technology
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
Banaras Hindu University
वाराणसी/Varanasi-221005



Head of the Department
Chemical Engg & Tech
IIT(BHU)

विभागाध्यक्ष/Head
रासायनिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी विभाग
Department of Chemical Engg. & Tech.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/Indian Institute of Technology
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय/Banaras Hindu University
वाराणसी/Varanasi-221005

Fax (फैक्स): 091-0542-2368092; Email : head.che@itbhu.ac.in

0542-2368092, 6702029, 6702024



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय)
(BANARAS HINDU UNIVERSITY)

रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY
(ऊच्चानुशीलन केन्द्र एवं डी एस टी प्रायोजित 'फिस्ट' विभाग)
(CENTRE OF ADVANCED STUDY & DST DEPARTMENT UNDER FIST)
(वाराणसी - 221004) Varanasi - 221005

Supply of a AAA class Solar Simulator with the following specifications at the Department of Chemical Engineering and Technology, Indian Institute of Technology (IIT), Varanasi-221005

1. AAA class Solar Simulator System
2. Target area of 50mm x 50mm (minimum) with uniform AAA illumination
3. Light Source: Minimum 150Watt arc lamp with the compatible power supply
4. Air Mass Filter AM1.5G should be included. AM1.0, AM1.5D mass filters are optional
5. Working distance : not less than 380 ± 15 mm
6. Manual Shutter to be included.
7. Beam turner to rotate the beam 360°
8. Comply with ASTM E927-19 and IEC-60904-9 or equivalent
9. AAA solar spectra must be verified during the installation

Budget: INR 5lakh approximate
Payment: 100% after successful installation
Warranty: Minimum 1 year

सहायक प्राचार्य
Assistant Professor
रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग
Deptt. of Chemical Engg. & Tech.
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
Indian Institute of Technology
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
Banaras Hindu University
वाराणसी/Varanasi-221005



एक कदम स्वच्छता की ओर

Fax (फैक्स): 091-0542-2368092; Email : head.che@itbhu.ac.in

☎ 0542-2368092, 6702029, 6702024